MPS Infotecnics Limited

CIN: L30007DL1989PLC131190 An ISO 9001 - 2008 Company



To,

Date: 04/09/2020

The Manager-Listing

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex (E), Mumbai-400051 The Manager-Listing

BSE Limited FLOOR 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

NSE Symbol-VISESHINFO

Scrip Code-532411

Sub: Intimation wrt publication of newspaper advertisement regarding Board Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement published in newspaper namely, 'Business Standard' (English and Hindi) dated 3rd September, 2020 intimating about the Board Meeting scheduled to be held on Friday, September 11, 2020.

The same will be available on the website of the Company: www.mpsinfotecnics.com.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You

Yours faithfully

For MPS Infotecnics Limited

Garima Singh

Company secretary

Corporate Office: 8-55, Sector - 65, Noida (U.P.)-201301

Ph: +91-0120-4713900, Fax: +91-0120-4324040

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-1

Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047

E-mail: info@viseshinfo.com

Website: www.mangalamengineering.com, Email.info@mangalamengineering.com. lotice is hereby given under reg 29 and 47 of SEB .ODR) Regulations, 2015 that a meeting of Boar f Directors of the Company will be held or hursday, the 10th September, 2020 at 3.00 P M to ter-alia consider and take on record the Unaudite inancial results for the quarter ended 30/06/202 and notice is available on the website of the exchange www.msei.in and company's website

Date: 02/09/2020

Director (DIN 07146392)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT Indian Overseas Bank (IOB) invites for the following: EOI Reference Number: EOI/ITD/001/20-21; DATED 28.08.2020

EXPRESSION OF INTEREST

For Empanelment of Fintech Companies for Software Development, Customization of Existing Software Application and / or Technical Support For Design Development Implementation and Maintenance of Software Applications.

The RFP document for the above tender is available in bank's e-tendering website https://iobtenders.auctiontiger.net & www.iob.in. For RFP details and future amendments, if any, keep referring to the above websites.

PUBLIC NOTICE

ursuant to the Scheme of Merger or malgamation approved by Regi Director W.R., MCA, Mumbai -2, PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT M/S SHAREX DYNAMIC (INDIA) PVT. LTD., having its Registered Office at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 registered with SEBI as a Registrars to an Issue & Share Transfer Agents(RTA) — Category I having valid Certificate of Permanent Registration No. NR000002102 intends to voluntarily surrender the said Registration, consequent to merger of the Company with SEBI registered RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. having valid Certificate of Permanent Registration No

Investors of all client companies of Share Dynamic (India) Pvt Ltd will be now served rom the same address by Link Intime ndia Pvt. Ltd.

nvestors can call on 022 49186270 or write to rnt.helpdesk@linkintime.co.ir

For Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd

Managing Directo Date: August 31, 2020 Place: Mumbai

KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Regd Office: 2B, Pretoria Stre Kolkata - 700 071 Telephone: 91-033-2282 3744/3745/ 3699/3671, Fax: 91-033-2282 3739 E-Mail: Kolkata@kkalpana.co.in Website: www.kkalpanagroup.com CIN: L19202WB1985PLC039431 NOTICE

Regulation 47(1) of the Securities an Exchange Board of India (Listin Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015, the (02nd of 2020-21) meeting of the Boar of Directors of Kkalpana Industrie (India) Limited will be held on Monday the 14th day of September, 2020 a 3:30P.M. at its Registered Office at 28 Pretoria Street, Kolkata-700 071, inter-ali o consider and approvethe Un-audite Financial Results (Standalone and Consolidated) of the company for th guarter ended 30th June, 2020 i accordance with Regulation 33 of th Securities and Exchange Board of Indi (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015.

Further, the trading window of th Company for dealing in equity share: of the Company will remain closed for all directors, executives one level below the Board and designated employee with effect from 01st July, 2020 to 16th Sentember 2020 (both days inclusive pursuant to SEBI (Prohibition of Inside Trading) Regulations, 2015 read with Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders frame by the Company.

In accordance with Regulation 47(2) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the said notice may be accesse on the company's website a www.kkalpanagroup.com and can also be accessed at BSE's website a www.bseindia.comand CSE's websit atwww.cseindia.com

By Order of the Board For Kkalpana Industries (India) Limite Place: Kolkata. Tanvi Panda

Date: 02.09.2020 Company Secretar (Membership No. ACS 31176)

ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED

41ST ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION The 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 29, 2020 at 02:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC" Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only n compliance with MCA Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020, SEE Circular dated May 12, 2020, the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), and the Securitie and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2019 ("SEBI Listing Regulations"), the Annual Report for the Financial Year 2019-20 including the Notice onvening the 41st Annual General Meeting (AGM) have been sent on Wednesday September 2 2020 only through electronic mode to the members of the Company whose email addresses ar registered with the Company / Depository Participant(s) and is also available for download on the www.adhunikindustries.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and Calcutta Stock Exchange Limited a

ww.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and incordance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. Members have been provided with the facility to cast their votes on a esolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of Central Depositories Services (India) I imited for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and voting at the AGM

Information and instructions including details of User Id and Password relating to e-voting ha been sent to the Members through email. The manner of remote e-voting and voting at the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who hav not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The e-voting portal of CDSL www.evotingindia.com will be open for voting from Saturday, 26t September, 2020 (09:00 a.m. IST) to Monday, 28th September, 2020 (5:00 p.m. IST). The remote of voting module will be disabled by Central Depositories Services (India) Limited for voting thereafte During this period, a person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the Regist of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 22nd Septembe 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting an

holding shares as on cut-off date i.e. 22nd September, 2020, may obtain the User Id and pa n the manner as provided in the Notice of the AGM. Only those Members / Shareholders who will be present in the AGM through VC/OAVM facility an have not cast their vote through remote e-voting are eligible to vote at the AGM. However, Member

who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. Members will be able t attend the AGM through VC/OAVM. Instructions for the Members for attending the AGM through Video Conference is provided in the Notice of the 41st AGM. The results of e-voting will be placed by the Company on its website www.ahunikindustries.com within two days of the AGM and also communicated to the Stock Exchanges, where the shares o

the Company are listed he resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the Annual General Meeting subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions. Mr. Mohan Ram Goenka, Practicing Company Secretaries (Membership No. FCS 4515) has bee appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available a v.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com o contact Mr. Nitin Kunder (022-2305 8738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-2305 843) or Mr. Rakes Dalvi (022-2305 8542). For Adhunik Industries Limite

Bharat Agarwa Company Secretary Place : Kolkata Dated : 02.09.2020



Registered Office: PO – Kanchanbagh, Hyderabad - 500058, Telangana, Tel. No: 040-2418 4515 Fax No: 040-2434 0214 Email Address: company.secretary@midhani-india.in Website: www.midhani-india.ii

46th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF MISHRA DHATU NIGAM LIMITED

The 46th AGM of Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11.00 A.M (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act), read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 & 20/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs on April 8th, 2020, April 13th, 2020 and May 5th, 2020, respectively, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses set out in the Notice convening the AGM.

Electronic copy/version of the Notice convening the AGM procedure & instructions for e-voting and Annual Report for FY 2019-20 will be sent to those Members whose email ID is registered with the Company/Depository Participants (DP).

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same - in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Alankit Assignments Limited (ALANKIT) with details of folio number and self-attested copy of PAN card at Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 or by sending e-mail to rta@alankit.com and Members can also send an e-mail to Company at company.secretary@midhani-india.in

For receiving dividend directly into the Bank Accounts, Members are kindly requested to:

I) update their bank account, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), NECS (National Electronic Clearing Services) mandate nominations, power of attorney, etc. with their respective DP in case shares are held in electronic form; and

ii) in case Members holding shares in physical form, they can te/provide their bank details by writing to ALANKI I or by mailing at rta@alankit.com with their name, bank details such as account no. IFSC/MICR details, folio details, self-attested PAN card, NECS (National Electronic Clearing Services) mandate, cancelled cheque leaf etc.

The Company will provide facility to Members to exercise their right to vote by electronic means. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the process of voting through remote e-voting/ e-voting, (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through evoting), will form part of the Notice of AGM

Notice convening the AGM and Annual Report for FY 2019-20 will be available on the website of the Company at www.midhani-india.in , and the stock exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, in due course.

For Mishra Dhatu Nigam Limited

Place: Hyderabad

Date: September 2nd, 2020

Paul Antony Company Secretary

TPCØDL

TP CENTRAL ODISHA DISTRIBUTION LIMITED

2nd Floor, IDCO Tower, Janpath Bhubaneshwar, Odisha 751022

NOTICE INVITING TENDER

Ope	Open Tenders are invited from eligible vendors for following:									
SI	Tender Description	Tender Enquiry	EMD	Tender Fee	Last date and					
No		No.	(Rs.	inclusive of	time of					
			Lakhs)	GST (Rs)	payment of					
_					Tender Fee					
1	Rate Contract for Earthing of	TPCODL/P&S/87/	2.00	5,000.00	14 Sep 2020,					
	Communication Panel and Grid	2020-21			15:00 hrs					
	substation equipments works.									
2	Rate Contract for Supply of 11	TPCODL/P&S/89/	2.55	5,000.00	14 Sep 2020,					
	KV XLPE UG Cable & 11 KV	2020-21			15:00 hrs					
	XLPE AB Cable.									
3	Rate Contract for Supply of 33	TPCODL/P&S/90/	0.68	5,000.00	14 Sep 2020,					
	KV XLPE UG Cable.	2020-21			15:00 hrs					
4	Rate Contract for Supply & Service	TPCODL/P&S/91/	4.39	5,000.00	14 Sep 2020,					
	of Cable Joint Kits.	2020-21			15:00 hrs					
5	Rate Contract for (SITC) of	TPCODL/P&S/86/	2.0	5,000.00	16 Sep 2020,					
l	addressable type fire detection	2020-21			15:00 hrs					
	and alarm systems in Grid									
	Substations.									
6	SITC for 33KV UG cabling from	TPCODL/P&S/55/	6.23	5,000.00	15 Sep 2020,					
	Jobra primary S/s to medical	2020-21			15.00 hrs					
	primary S/s for development of									
	Danasi u vasu ja vis				1					

SCB Medical College, Cuttack For details, please visit Tender Section on website https://tpcentralodisha.com.

Above Tenders are to be submitted in our e-tendering portal only. No Hard Copy submission is acceptable. For guidance to participate in our e-tendering Portal, bidders are requested to follow the procedure mentioned in relevant Tender Document, After receipt of required Tender Fee, Link will be shared to concerned bidders for participation. After receipt of link for participation, .bidders shall make all tender related communication through our e-tendering portal.

Bidders are requested to keep visiting our above website, for future modifications, if any, to our tender Documents.

MPS Infotecnics Limited

CIN: L30007DL1989PLC131190

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Ph. No. +91 11 43571044; Fax: +91 11 43571047 mpsinfotec.com; Website

Notice reby given that pursuant to Regulation 29, of the Listing Regulations 2015, neeting of the Board of Directors will be held on Friday,11th September,2020at 4:00 p.m. a ne registered office of the Company at 703, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road ew Delhi-110001, inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial Result Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter ended on June 30, 2020. he said information is also available on the Company's website at www.mpsinfotec.co nder Investors Zone and the same has been uploaded in NEAPS and BSE Listing Center d is also available on Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.nsein For MPS Infotecnics Limite

Place : New Delhi Date: 01.09.2020

Garima Single Company Secretary

GFL Limited

(Earlier known as Gujarat Fluorochemicals Limited) (CIN: L24110GJ1987PLC009362)

Registered Office: Survey No. 16/3, 26 & 27, Village Ranjitnagar -389 380

Taluka: Ghoghamba, District: Panchmahal, Gujarat Email: bvdesai.gfl.co.in/bhavi.shah@gfl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 10th September, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020

The above information is also available on the website of the Company www.gfllimited.co.in and BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com.

BHAVI SHAH Date: 02nd September, 2020 Company Secretary

GSPL India Gasnet Limited

NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL) invites bids through e-tendering for "PROCUREMENT OF USM AND TURBINE BASED METERING SKIDS FOR MBPL PROJECT PHASE-II" vide single stage three part bidding process.
Entire bidding process including price bid will take place through (n)Procure

Interested bidders can Bid and View the Tender Documents, Bid qualification Criteria and Bidding Schedule on https://www.nprocure.com
Details can also be viewed on GIGL Website (http://gspcgroup.com/GIGL/)

Details	Date & Time					
Date of tender Upload on	03/09/2020, 12:00 hrs IST					
www.nprocure.com						
Pre Bid Meeting (online)	14/09/2020, 16:00 hrs IST					
Last Date to Submit Pre-Bid Queries	15/09/2020, 18:00 hrs IST					
Last Date to Submit online	29/09/2020 before 14:00 hrs IST					
Techno-Commercial Bid						
Online BID opening Date (Primary)	29/09/2020, 14:05 hrs IST					

All future announcement related to this tender shall be published or (n)Procure Portal ONLY. GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage withou assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids received



on, without assigning any reasons whatsoever.

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the

Company will be held **on Thursday, 10th September 2020** online through video conferencing, to inter alia consider and adopt Un Audited Financial Results for the first quarter ending 30th June 2020 and preferential allotment of 21290701 shares to SRJR Life Science LLP pursuant to the Order passed by NCLT, Chennal as part of approved Resolution Plan under IBC 2016 and any other busines with the permission of the Chair. The Company has already received In-principle approval from NSE for preferential allotment and awaitin n-principle approval from BSE.

Further in accordance with the Code of Conduct for prevention of Insider Trading pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in securities of the Company shall remain closed until 48 hours after the financial results approved at the meeting are made public.

Thanking you,

Yours faithfully,
For BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED



INDOCO REMEDIES LIMITED

[CIN: L85190MH1947PLC005913] Registered Office: Indoco House, 166 CST Road Kalina, Santacruz (E), Mumbai 400 098 Tel: 62871000 33861250 email: compliance.officer@indoco.com/ web: www.indoco.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 73RD ANNUAL

GENERAL MEETING OF INDOCO REMEDIES LIMITED NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 24, 2020 at 10.30 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting which is being circulated for convening the Annual General Meeting.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM withou the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meetin of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financia year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose emai addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaic MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020. Members may note tha the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.indoco.com; websites of the Stocl Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited at www.nseindia com; and www.bseindia.com; respectively. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Member to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting using electronic voting system (e-voting) provided by Link Intime India Pyt Ltd. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annua General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provide in the Notice of the Annual General Meeting.

The remote e-voting period commences on Saturday September 19, 2020 (10.00 a.m IST) and ends on Wednesday, September 23, 2020 (5.00 p.m. IST). During this period Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt Ltd thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not entitled to cast their vote

Registration of email ID and Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registra & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent of the registered email address. In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Compani

its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividence the following instructions to be followed (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details, uploa

(ii) In the case of Shares held in Demat mode:

the required documents and submit.

Place : Mumbai

Date: September 02, 2020

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register th email address and bank account details in the demat account as per the process followe and advised by the DP.

This Notice shall also be available on the website of the Company at www.indoco.com an on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of Indi Limited at www.nseindia.com.

For Indoco Remedies Ltd

Jayshankar Menon Company Secretary

(\odot) **ECGC Limited**

TENDER NOTICE ECGC Ltd., a public sector Export Credit Insurance Company invites sealed tenders from eligible bidders for "Appointment of consultant for Implementation of Business continuity management (BCM) Programme". For detailed tender document please visit our website at https://www.ecgc.in/ english/tenders-called-for/. Addendum/Corrigendum, if any, will be published in the above mentioned website only.

HIMADRI CREDIT & FINANCE LIMITED

Regd Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata- 700 001 CIN: I 65921WB1994PLC062875: Website: www.himadricredit.in; email: hcfl@himadri.com Sub: Notice of Board Meeting

Notice pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the 2rd (2020-21) meeting of the Board of Directors of Himadri Credit & Finance Limited is scheduled to be held at its Corporate Office at "Ruby House", 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata - 700001 on Thursday, 10 September, 2020 at 02.00 p.m. inter-alia to consider and take on record the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30 June 2020. This notice is also available at the Company's website at www.himadricredit.in.

For Himadri Credit & Finance Ltd

Place : Kolkata Date : 2 September 2020 Koushik Ranjan Saha Company Secretary

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED CANTABIL

Registered Office: B- 16, Ground Floor, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1989PLC034995 Tel: 91-11-27156381/82, Telefax: 91-11-27156383

NOTICE TO 32 ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty-Second (32nd) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Cantabil Retail India Limited ('the Company') will be held on Friday, September 25, 2020 at 11.00 A.M. (IST) through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, the Company has sent the Notice of the 32nd AGM along with the Annual Report 2019-20 on Wednesday, September 2, 2020, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of

The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 32nd AGM is available on the website of the Company at www.cantabilinternational.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India)

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with 2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of E-voting	From 10.00 a.m. (IST) on Tuesday, September 22, 2020
End of E-voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 24, 2020

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date

- b) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 18, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM;
- c) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdsl.com in as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;
- Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.
- Mr. Devesh Kumar Vasisht, failing him Ms. Priyanka, Partners of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, New Delhi, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e. on or before September 27, 2020 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website www.cantabilinternational.com and also available at BSE on (www.bseindia.com) and NSE on (www.nseindia.com)
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

Registration of e-mail addresses:

- a) Shareholders holding share(s) in dematerialized form are requested to please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@cantabilinternational.com/ beetalrta@gmail.com.
- Shareholders holding share(s) in physical mode are requested to furnish like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@cantabilinternational.com/ beetalrta@gmail.com.

Book Closure and Dividend:

Place: New Delhi

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the Board of Directors of the Company in its meeting held on Friday, August 28, 2020, has declared final divided of dividend of Rs. 1/- (Rupees One only) per share i.e @10% on equity share of face value of Rs. 10/- each, fully paid up, for the financial year ended on 31 March 2020, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 19, 2020 to Friday, September 25, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 32nd AGM and dividend for the financial year 2019-20. The Company has also fixed the record date/Cutt off date as Friday September 18, 2020 to determine the eligible shareholder entitled to receive dividend at the said meeting.

> For CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED Sd/-

Date: 2nd September, 2020 **POONAM CHAHAL** Company Secretary and Compliance officer

E-mail: investors@cantabilinternational.com Website: www.cantabilinternational.com

Annual General Meeting:

the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SSthe SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM-

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना । एतदृद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटररों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तियां बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तियां "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी :

L		3									
		ऋृण खाता नंबर/	मूल कर्जदार/	ट्रस्ट	सम्पत्ति का	कुल बकाया राशि	धरोहर राशि जमा	सुरक्षित मूल्य		नीलामी की तिथि	कब्जा का
ı	स.	बैक का नाम/	सह–कर्जदार/	का नाम	प्रकार /	भारतीय रूपए में	(ईएमडी)	(रू.) भारतीय	की तिथि	एवं समय	प्रकार
ı		वित्तीय संस्था	जमानतदार का नाम		आकार / प्रकृति	23.07.2020 तक	भारतीय रूपए में	रूपए में			
Ī	1	183561000	गुप्ता न्यूज़ पेपर और	आर्सिल रिटेल	दुकान क्षेत्र	19,02,914.56/-	85,000/-	8,50,000/-	10.09.2020	21.09.2020	भौतिक
ı		00019	मैगजिन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स/प्रवीण	लोन पोर्टफोलियों	180 वर्ग फुट					दोपहर	
ı		डीसीबी बैंक	कुमार गुप्ता / मिनाक्षी गुप्ता	−022−ए−ट्रस्ट	(फ्रीहोल्ड)					1:30 बजे	

प्रतिभूत सम्पत्ति पताः शॉप नंबर 72/ए, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 72, बालुपुरा कॉलोनी, रमते राम रोड़, नीलकमल फर्नीचर के पीछे, गाजियाबाद (यूपी) 201001

1 एचएचओएमएन	दुष्यंत कुमार /	आर्सिल रिटेल	फ्लैट 648	13,24,082.10/-	80,000/-	8,00,000/-	15.09.2020	05.10.2020	भौतिक	
एनओ1000494	रजनी / संतोष शर्मा	लोन पोर्टफोलियों	वर्ग फीट					दोपहर		
77		−022 −ए−ट्रस्ट	(फ्रीहोल्ड)					2:00 बजे		

प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्रॉपर्टी नंबर 3 / 210, फर्स्ट फ्लोर गली गंगा राम छोटा बाजार शाहदरा नयी दिल्ली 110032

I	नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना									
ı	1	नीलामी तिथि	यहां ऊपर वर्णित अनुसार	5	ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले				
ı	2		द्वितीय तूल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर,	6		नई दिल्ली				
ı		बोली ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है सेवाः	निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यु राजिन्दर नगर, नई दिल्ली—110060	Н	द्वारा किए जाने हैं					
ı		vikram.singh@arcil.co.in, mahamaya.chowdhury@arcil.co.in,	(ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से कोविद—19 स्थिति पर निर्भर करता	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित	नाम प्रत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्ट कालम में दर्शाया गया है				
ı		kamal.mishra@arcil.co.in	(आनलाइन या व्याक्तगत रूप स काविद—१५ स्थित पर निगर करता है)		किया जाना है निरीक्षण का समय	कालम म दशाया गया ह पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक				
ı	3	नीलामी हेतु वेबसाइट	www.arcil.co.in	1°1	निरावण पर्य राजप	्राचा । १००० वर्ण स अप. ५.०० वर्ण सप (नोट : कोविद—19 स्थिति को देखते				
ı	4	सम्पर्क व्यक्ति तथा	विक्रम सिंह / महामाया चौधरी / कमल मिश्रा	1		हुए निरीक्षण की तिथि और समय				
ı		फोन नंबर	8860122299 / 9654997601 / 9819820760			बदला जा समता है)				
ı	7									

बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार, नीलामी में ऑनलाइन प्रतिमागिता की सुविधा प्राप्त क सकता है। ऑनलाइन बिडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन तथा बिङ / निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी बिड्स अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के तहत सूचना भी मानी जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड



तिथि: 03-08-2020

असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, <u>पंजीकृत कार्यालय :</u> दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन : + 91 2266581300

शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी यैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या मवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली—110060, फोन : 011-46370444 www.arcil.co.in

युको बैंक 🔞 UCO BANK

बीओ : पंजाबी बाग शाखा, रोड नं. 7, पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली—110026 फोन नंबर 011-28314158, Email:punjab@ucobank.co.in

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने यूको बैंक, कमला नगर—दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्मा तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारों 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 24-01-2020 जारी की थी, जिसमें 1) आई स्टाइल गोल्ड, पंजीकृत कार्यालय डी -10 विकास मार्ग, मेन रोड, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली (2) लक्ष्य ओबेरॉय पुत्र सुरिंदर पाल ओबेरॉय (प्रोपराइटर, आई स्टाइल गोल्ड) अवासीय हाउस नंबर 11, रोड नंबर 18 ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली —110026 (3) सुरिंदर पाल ओबेरॉय पुत्र हर प्रकाश ओबेराय (गारंटर) अवासीय हाउस नंबर 11, रोड नंबर 18 ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026 (4) रेणु ओबेरॉय पत्नी सुरिंदर पाल ओबेरॉय (गारंटर) अवासीय हाउस नंबर 11, रोड नंबर 18. पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026 कर्जदारगण से सूचना में वर्णितानुसार 31.12.2019 तक बकाया राशि रू. 39,81,983.96 (रू. उन्नतालीस लाख इक्कासी हजार नो सौ तीयासी तथा पैसे छीयानवे मात्र) का भुगतान आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार / गारंटर बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 31.08.2020 को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार/ गारंटर को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतदृद्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यको बैंक, कमला नगर शाखा, दिल्ली की 31-12-2019 तक बकाया राशि रू. 39.81.983.96 (रू उन्नतालीस लाख इक्कासी हजार नो सौ तीयासी तथा पैसे छीयानवे मात्र) दिनांक 01.01.2020 का भुगतान आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों इत्यादि सहित, अदा करने के बाद ही किया जा सकता है। वसूली अगर कोई हो तो उसे घटा दिया जायेगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय प्रोपर्टी कुलक्षेत्रफल 144 वर्ग गज स्थित है प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) मकान नंबर 11, रोड नंबर 18, पर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली में संयक्त रूप से सुरिंदर पाल ओबेरॉय और रेन् ओबेरॉय का मालिकाना हक । टाईटल डीड नं. 3355 दिनांक 05.07.2016 को बुक नंबर 1 खंड संख्यां. 2852 में पष्ठ संख्या 61 से 66 तक सब रजिस्टार दिल्ली दाखिल है। चौहददीः पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः प्रवेश, उत्तरः अन्य का प्रोपर्टी, दक्षिणः संपत्ति नं. 13

दिनांक : 31–08–2020, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

र्वेक 🗈 UCO BANK

बीओ : पंजाबी बाग शाखा, रोड नं. 7, पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली—110026

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने युको बैंक, कमला नगर–दिल्ली के प्राधिकत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ मठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 24—01—2020 जारी की थी, जिसमें **(1) सुरिन्द्र** पाल ओवराय पिता हर प्रकाश ओवराय मकान नं. 11, रोड नं. 18, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली—110026 (2) रेनु ओवरॉय पत्नी सुरिन्द्र पाल ओवरॉय मकान नं. 11, रोड नं. 18, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 (3) अनुज ओवरॉय पिता सुरिन्द्र पाल ओवरॉय मकान नं. 11, रोड नं. 18, पूर्वी पंजाबी बागे, नई दिल्ली—110026 (4) मेघा बिष्ट पत्नी अनुज ओवरॉय ओवराय मकान नं. 11, रोड नं. 18, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली—110026 (5) लक्ष्य ओवरॉय पिता सुरिन्द्र पाल ओवरॉय मकान नं. 11, रोड नं. 18, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 कर्जदारगण से सूचना में वर्णितानुसार 31.12.2019 तक बकाया राशि रू. 95,79,460.47 (रू. पंचानवे लाख उन्नासी हजार चार सौ साठ तथा पैसे सैंतालीस मात्र) का भुगतान आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार / गारंटर बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्वारा कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 31,08,2020 को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार / गारंटर को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतदृद्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यूको बैंक, कमला नगर शाखा, दिल्ली की 31-12-2019 तक बकाया राशि रू. 95,79,460.47 (रू. पंचानवे लाख उन्नासी हजार चार सौ साउँ तथा पैसे सैंतालीस मात्र) दिनांक 01.01.2020 का भुगतान आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों इत्यादि सहित, अदा करने के बाद ही किया जा सकता है। वसूली अगर कोई हो तो उसे घटा दिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय प्रोपर्टी कुलक्षेत्रफल 144 वर्ग गज स्थित है प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) मकान नंबर 11, रोड नंबर 18, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से सुरिंदर पाल ओबेरॉय और रेनू ओबेरॉय का मालिकाना हक । टाईटल डीड नं. 3355 दिनांक 05.07.2016 को बुक नंबर 1

खंड संख्यां. 2852 में पृष्ठ संख्या 61 से 66 तक सब रजिस्टार दिल्ली दाखिल है।

चौहददीः पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः प्रवेश, उत्तरः अन्य का प्रोपर्टी, दक्षिणः संपत्ति नं. 13

MPS Infotecnics Limited

CIN: L30007DL1989PLC131190

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Ph. No. +91 11 43571044; Fax: +91 11 43571047 Email: info@mpsinfotec.com; Website: www.mpsinfotecnics.com

Notice
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, of the Listing Regulations 2015

meeting of the Board of Directors will be held on Friday, 11th September, 2020at 4:00 p.m. a

the registered office of the Company at 703, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road,

New Delhi-110001, inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter ended on June 30, 2020.

The said information is also available on the Company's website at www.mps under Investors Zone and the same has been uploaded in NEAPS and BSE Listing Cente and is also available on Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

Place : New Delhi Date : 01.09.2020

दिनांक : 31-08-2020, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड CIN: L74899DL1993PLC051841

पंजी.कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं ८ कोंडली, नई दिल्ली-110096 निगमित कार्याः एफसी-23, सेक्टर-16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301 उ.प्र. टेली: 91—120 460 2424, वेबसाइट:www.bagnetwork24.in ईमेल: info@bagnetwork.in

वीसी (वीडियो कांफ्रेसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों) द्वारा आयोजित की जाने वाली बी. ए. जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बी. ए. जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 28 ऐसंतंबर, 2020 को दोपहर 3.30 बजे उपत्री मंगल सुवना दिने के लिए दिया जा रहा है. में वर्णित अनुसार व्यापार करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग ("वीसी")/(अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (अ)एवीएम) द्वारा आयोजित किया जाएगा

कोविड-19 महामारी के चलते, निगमित मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्र स् 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, साधारण परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और ाधारण परिपन्न सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (समग रूप से ''एमसीए'' के रूप मे साविधित) और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड के परिपन्न सं-SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 विनांक 12 मई, 2020 :(सेबी परिपन्न'') के अनुपालन में कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित किए जान की अनुमति है। अधिनियम के प्रावधानों और अन्य एमसीए परिपृत्र और सेबी परिपन्न के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ;('सूचीबद्ध विनियम'') के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की 27वीं एजीएम वी/ओएवीएम द्वारा आयोजित

ज्याजा रहा वा उपरोक्त एमसीए परिपत्रों व सेबी परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक रूप से भेजी जा रही है जिनके ई—मेल पते कंपनी/डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019—20 कंपनी की वेबसाइट www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेश्रानल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सचना एनएसडीएल (रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेसी) की वेबसाइट एनएसडीएल (रिमीट ई—वीटिंग की सुविधा प्रदान करन वाली एजेसी) की वंबसाइट www.eyoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा से ही एजीएम से जुड़ने के निर्देश एजीएम की सूचना में हिए पाए हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी। कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में विर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वीट डालने के लिए रिमोट इं—वीटिंग सुविधा ('रिमोट इं—वीटिंग सुविधा ('र्दे नेविटंग)' कर सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने एजीएम ('ई—वोटिंग) के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। कंपनी/ डिपोजिटरी के साथ अपने ई—मेल पंजीकृत न करने वाले सदस्य, कृपया ई—वोटिंग के लिए लींग—इन विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ई—मेल रंजिस्टर करने के लिए नीच दिए गए निर्देशों का पालन करें:

लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य — कृपया info@bagnetwork.in पर फोलियो नंबर शेयर्धारक का नाम जैसे आवश्यक विव्रण पर भेजें । 2. गैर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपोजिटरी से संपर्क कर अपने रजिस्टर ई—मेल प्राप्त कर सकते हैं या info@bagnetwork.in पर मेल करें। 27वीं एजीएम की सूचना कोर्स के संबंध में अपने पंजीकृत ई—मेल पर लागू नियमों के अनुपालन में प्रेषण के लिए कट—ऑफ डेट तक शेयर रखने वाले सदस्यों को भेजी जाएगी।

श्रुपना के सिर्फ प्रकार कर पार्थ स्थार प्रकार कर किया है। रिमोट ई−बोटिंग (एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान) से संबंधित किसी पूछताछ ∕ शिकायत के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए त्वरित पूछ जाने प्रश्न (एफएक्यूज) या www.evoling@nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई—वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800–222–990 पर कॉल करें या www.evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें एनएसडीएल के श्री अमित विशाल या सुश्री पल्लवी महात्रे, या श्री प्रतीक भट्ट से उनके निर्धारित ई—मेल आईडी : amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in, pratikb@nsdl.co.in पर भेजें या टेलीफोन नं.: +91 22 2499 4360 / 4545 / 4738 पर कॉल करें।

निदेशक मंडल के आदेशानु बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लि. के लिए हस्ता/-दिनांक : 02.09.2020 राजीव पराशर स्थान : नोएडा कंपनी सचिव

🖦 🧠 टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएन: L29199HR1956PLC033107 पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मधुरा रोड, डाकघर अमर नगर, फरीदाबाद, - 121003 (हरियाणा). फोन नं: 0129 2251482, वेबसाइट: www.talbros.com, ई-मेल: seema_narang@talbros.com

63वीं वार्षिक आम बैठक,

्रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/ 2020 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 ओर 5 मई, 2020 (एमसीए परिपन्न) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (सेबी परिपत्र) के अनुपालन में 63वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार सामान्य एवं विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की <mark>63वीं वार्षिक आम बैठक (</mark>एजीएम) **शुक्रवार,** 25 सितम्बर, 2020 को प्रात: 10.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के संदर्भ में 63वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग) के लिए प्रक्रिया एवं निर्देश तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 2 सितम्बर, 2020 को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कम्पनी /डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। 63वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपन्न और सेबी परिपन्न के माध्यम से हटा दी गई है। एजीएम में शामिल होने, वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग) आदि के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नलिखित लाइनों पर एजीएम की सूचना में दी गई है:

- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा हटा ली जाएगी।
- 2. ऐसा व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in या seema_narang@talbros.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर
- . सदस्यगण जो रिमोट ई-वोर्टिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दे चुके है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.talbros.com और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है तथा डाउनलोड की जा सकती है और यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- . सदस्यगण जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं है, वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने के संबंध में इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी और भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने के संबंध में rajeev kr@kfintech.com/seema narang@talbros.com/ kapil_qupta@talbros.com पर लिखित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत कराएं।
- . ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीम में भाग लेने के लिए किसी भी तकनीकी सहायता हेतु www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरीज लिमिटेड से उनके नामोदिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में 63वीं एजीएम के प्रयोजन और इकिटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो जाता है, तो उसकी पात्रता के निर्धारण के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 17 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

and the same and the same of t

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोर्नेट्स लिमिटेड हस्ता./-सीमा नारंग

कम्पनी सचिव

स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 2 सितम्बर, 2020

कार्यालय का पता : जीएसएएम, दूसरी मंजिल, 7ए डीएलएफ बिल्डिंग, डीएलएफ साइबर सिटी, सेक्टर-24, 25, 25ए, गुड़गाँव-122002 (हरियाणा)

दूरभाष सं. 0124-4876751, मोबाइल नं. 9873382900

बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

धूंकि, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन कर्जदारों को जारी की गई मांग सूचना के तहत उनके द्वारा नीचे सारणी में उल्लिखित मांग की गई रकम चुकता करने में विफल रहने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग द्वारा स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी ने, सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन, प्रत्याभूत सम्पत्ति (यहां नीचे उल्लिखित) पर कब्जा कर लिया है। **''स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक''** अब बोली आमंत्रण द्वारा "जैसे है जहां है, जैसे है जो है एवं वहां जो कुछ है तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर" उक्त प्रत्याभूत सम्पत्ति की बिक्री करने जा रही है।

कर्जदारों को एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **पंद्रह दिनों** के अंदर सारणी में उल्लिखित बकाया रकम चुकता करने हेतु सूचना दी जाती है, अन्यथा प्रत्याभूत सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जाएगी।

खाता का नाम	ाबक्रा का जान वाला सम्पात का विवरण	बकाया रकम	आरक्षित मूल्य	बयाना साश जमा	ानराक्षण का ताराख	नालामा का ताराख एवं समय
कर्जदार : मैसर्स सिक्काज क्विक हैंडलिंग सर्विस (प्रा) लि. निदेशक/गारंटीदाता/गिरवीदाता : 1. श्री संजीव सिक्का 2. श्री राजीव सिक्का 3. सुश्री सोनिया सिक्का 4. स्वर्गीय श्रीमती कांता सिक्का (अपनी वैध उत्तराधिकारी के जरिए) 5. सुश्री नंदिता सिक्का	सम्पत्ति सं. बी-550, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065, परिमाप 471 वर्ग यार्ड का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चौहदी : उत्तर में: 80 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व में : सम्पत्ति सं. बी-549, पश्चिम में : सम्पत्ति सं. बी-551 एवं दक्षिण में : सर्विस लेन	दिनांक 31.07,2020 को रु. 25,91,07,832,24 साथ में तदुपरांत उस पर ब्याज तथा लागत। धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तारीख 	रु. 11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़)	रु. 1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख)	14,09,2020 (पूर्वाह्न 11,00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक)	22,09,2020 (अपराह्न 1,30 बजे से अपराह्न 3,30 बजे तक)
अञ्च जानकारी/निगम गर्व गर्ने :						


हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

- 1 बिकी सम्पर्ण रूप से इस विज्ञाप्ति में सल्लिखित नियम एवं शर्तों पर आधारित है।
- 2. इच्छुक क्रेतागण संबंधित सम्पत्ति के लिए सारणी में निर्दिष्ट तारीख एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। अधिकृत अधिकारी के एकल इच्छा के अनुसार तथा पूर्व सूचना/अनुरोध कर अन्य किसी भी कार्यकारी दिवस को काम के घंटे के दौरान भी सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है।
- 10% ईएमडी तथा अन्य केवाईसी दस्तावेज के साथ निविदा/बोली दस्तावेज अधिकृत अधिकारी के पास ऊपर उल्लिखित पते पर दिनांक 21.09.2020 को अथवा उससे पहले अपराहन 5.00 बजे तक सभी कार्यकारी
- इच्छुक बोलीदाताओं को नाम एवं पता साथ में वैध दूरभाष संख्या, जिसके लिए बोली जमा की जा रही है उस सम्पत्ति का विवरण, खाते का नाम तथा प्रस्तावित मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) के साथ केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड तथा पता का साक्ष्य) का उल्लेख कर अधिकृत अधिकार को संबोधित एक मुहरबंद लिफाफे में अपनी निविदा/बोली दस्तावेज इस सूचना में वर्णित ऊपर उल्लिखित कार्यालय पते पर जमा करना होगा तथा लिफाफ के आवरण पर जिसके लिए बोली जमा की जा रही है उस खाते का नाम अंकित करना होगा।
- लिफाफे के बाहर "स्टैंडर्ड चार्डर वैंक खाता सिक्काज क्यिक हैंडलिंग सर्विस प्रा. लि." के पक्ष में दिल्ली-एनसीआर में भगतेय अनुसचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा आहरित ईएमडी के रूप में मुल डीडी/पीओ संलग्न किया जाना चाहिए, इसके बगैर कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। सफल बोलीदाता को 24 घंटे के अंदर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी राशि के समायोजन के उपरांत, बिक्री मुल्य की 25% रकम जमा करना होगा तथा शेष 75% रकम बिक्री के 15 दिनों से पहले अथवा अनुरोध
- पर अधिकृत अधिकारी द्वारा विस्तारित अवधि तक जमा करना होगा। भुगतान करने में विफल रहने पर पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी। अधिकत अधिकारी द्वारा संबंधित सम्पत्ति के लिए सारणी में निर्दिष्ट तारीख एवं समय पर ऊपर उल्लिखित पते पर बोलीदाताओं की मौजदगी में बंद बोलियों को खोल कर नीलामी का संचालन किया जाएगा। किसी भी
- बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट तारीख एवं स्थान पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में नीलामी संचालित की जाएगी। अधिकत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी/सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने का अथवा बिक्री स्थिगत अथवा रद्द करने का, स्थिति के अनुसार, अधिकार सरक्षित है। परस्पर बोली के दौरान इस सूचना में ऊपर उल्लिखित सम्पत्ति के लिए न्यूनतम बोली वृद्धि की रकम रु. 10,00,000/- होगी।
- बिक्री की प्रक्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी के रूप में जमा की गई डीडी/पीओ वापस कर दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 10. संबंधित तारीख को बकाया अथवा होने वाली सभी संविधिक देयताओं/करों/रखरखाव शुल्क/सम्पत्ति कर/बिजली/पानी का शुल्क इत्यादि की जानकारी बोलीदाता को प्राप्त करनी होगी तथा सफल बोलीदाता को उसका वहन करना होगा। अधिकृत अधिकारी/बैंक उसके बारे में कोई जानकारी प्रदान करने अथवा बिक्री के उपरांत किसी भी प्रकार की बकाया रकम चुकता करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11. और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पार्टियाँ अधिकृत अधिकारी से बैंक के ऊपर उल्लिखित पते पर तथा दूरभाष संख्या पर अथवा अधिकृत अधिकार से उनके मोबाइल सं. 9873382900 पर काम के घंटे के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

12. बिक्री की तारीख से पहले सम्पूर्ण बकाया रकम चुकता करने के लिए यह कर्जदारों हेतु 15 दिनों की बिक्री सूचना भी है। अगर आपके पास कोई बोलीदाता है तो वो नियम एवं शर्तों के अनुसार बोली में भाग ले सकते

हस्ताक्षर दिनांक : 03/09/2020 अधिकृत अधिकारी स्थान : गुड़गाँव स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

DISH TV INDIA LIMITED









Regd. Office: 18th Floor, A Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra



d2h

ratuculars	Standarone				Consolidated				1
	Quarter ended		Year ended	Quarter ended			Year ended	ĺ	
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	
1. Total income from operations	41,005	41,709	36,017	151,800	83,558	86,906	92,630	355,634	
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,810	7,257	(864)	8,089	10,265	5,553	3,098	12,815	
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,810	(183,590)	(864)	(183,827)	10,265	(185,997)	3,098	(178,735)	İ
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,516	(130,415)	(5,871)	(139,409)	7,454	(145,625)	(3,544)	(165,484)	
5. Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	5,516	(130,355)	(5,871)	(139,349)	7,172	(146,209)	(3,496)	(165,901)	
6. Equity Share Capital	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	18,413	İ
7. Other Equity	-	-		375,852			-	366,568	
8. Basic and diluted earnings per share (for continuing and discontinued operations) of Re. 1 each (not annualised) (In Rs.)	0.29	(6.78)	(0.31)	(7.25)	0.39	(7.54)	(0.17)	(8.52)	

The above information is an extract of the detailed format of financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.dishd2h.com.

> For and on behalf of the Board of Directors DISH TV INDIA LIMITED

Anil Kumar Dua Group Chief Executive Officer and Executive Director DIN: 03640948

The same notice may be accessed on the Company's website at www.chl.co.in and

rebsite of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com. By Order of the Board For CHL Limited

Place: New Delhi Date : 02[™] September, 2020 **Company Secretary**



Garima Singh **Company Secretary**

For MPS Infotecnics Limite

CHL LIMITED CIN: L55101DL1979PLC009498

Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025

Tel.: 91-11-26835070, 47808080 Fax: 26836288

E-mail: chl@chl.co.in NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 07th September, 2020 at 01:00 PM, at Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110 025, to interalia, consider and approve the Unaudited Financial

Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the First Quarter ended on 30th June, 2020, fixation of date of 41st Annual General Meeting.

G. J. Varadarajan

Place: Noida Dated: 02 September 2020

Darticulare